



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 1978/पौष 16, 1899

No 15]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 1978/PAUSA 16, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विस्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1978
सीमा शुल्क

सां०का०मि० 16(अ) —केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक सं० 90 19/18, 90 19 और 90 20 के अधीन आने वाले चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और निदान सम्बन्धी औजार, उपस्कर और साधनों का, जिनका आयात साधारणतया या प्रत्येक मामले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट अस्पतालों में उपयोग के लिए आवश्यक औजार, उपस्कर और साधनों के रूप में अनुमोदित किया गया है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क से और उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय प्रतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

सारणी

- 1 निम्नलिखित द्वारा चलाए जा रहे सभी अस्पताल—
- (क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार सब राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्थानीय प्राधिकरण,
- (ख) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित संस्थाएँ,
- (ग) सोसाइटी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, और ऐसी सोसाइटीयों का नियंत्रण खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा होता हो।

2 ऐसे सभी अस्पताल जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित पूर्व सगठनों द्वारा चलाए जाते या पर्याप्त रूप से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रमाणित किए जाएं

3 बाई अन्य अस्पताल, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, साधारणतया या प्रत्येक मामले में न केवल किसी जाति पाति, कुल धर्म या भाषा के भेद भाव के बिना निदान या उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए प्रमाणित किया जाए, बल्कि उक्त सुविधा—

- (क) कम से कम अपने 40 प्रतिशत ब्राह्मरी-मरीजों का भी निशुल्क दे,
- (ख) तीन मी रूपया प्रति मास से कम आय वाले कुटुम्बों के सभी भीतरी-मरीजों को ऐसे मरीजों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत श्रव्याग इस प्रयोजन के लिए आगन्तित रखते हुए निशुल्क दे,
- (ग) खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मरीजों से भिन्न मरीजों के लिए सबन्धित मरीजों की भाव के आधारे पर या अन्यथा युक्तियुक्त प्रभार लेकर दे।

[सं० 8/मिसिल सं० 460/137/77-सीमा शुल्क-5]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th January, 1978

CUSTOMS

GSR 16(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52

of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts medical, surgical and diagnostic equipment/apparatus and appliances, falling under Heading Nos. 90.17/18, 90.19 and 90.20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) the import of which is approved, either generally or in each case by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, as essential for use in the hospitals, specified in the Table below, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act.

THE TABLE

1. All hospitals run by—
 - (a) the Central Government, a State Government, a Union territory Administration or a local authority;
 - (b) institutions established by or under a law;
 - (c) societies registered under any law relating to registration of societies, such societies being controlled by any of the authorities referred to in clause (a).
2. All such hospitals as may be certified by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, to be run or substantially aided by such charitable organisations as are approved, from time to time, by the said Ministry.
3. Any other hospital which may be certified by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India either generally or in each case, to be providing diagnostic or treatment facilities not only without any distinction of caste, creed, race, religion or language but also,—
 - (a) free to at least 40 per cent of all their out-door patients;
 - (b) free to all indoor patients belonging to families with an income of less than Rupees three hundred per month, keeping for this purpose at least 10 per cent of all their beds reserved for such patients; and
 - (c) at reasonable charges either on the basis of the income of the patients concerned or otherwise, to patients other than those specified in clause (a) and (b).

[No. 8/F. No. 460/137/77-Cus.-V]

सीमा-शुल्क

सं. 17(ख).—केन्द्रीय सरकार, विनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना संख्या 123-सीमा-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित और मशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम संख्या 166 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“167 सं. 8 सीमा-शुल्क, तारीख 6-1-1978”।

[सं. 9/का.सं. 460/137/77-सीमा-शुल्क-5]

ए. के. सरकार, अवर सचिव

CUSTOMS

G.S.R. 17(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 123-Customs, dated the 1st July, 1977, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 166 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“167 No. 8 Customs, dated 6th January 1978”.

[No. 9/F. No. 460/137/77-Cus.-V]

A. K. SARKAR, Under Secy.